

प्रभागित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एकड़ी पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री... जगद्दा... सहायक अधिकारी मापीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमाणिल... ३/८५ को निर्गत किया जाता है।

*Sar*  
18/06/21

कामीप्रालक अधिकारी  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रकार्डल, भद्रवनी

*C/S*  
18/06/21

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No. 2603

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name to work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

1st on Ape Bill

Name of work— Output & Performance

Babud. Maint. of road from  
Rahikal Lakhapatti to  
Chauri under M.R.N / 2020-21

Name of Agency— M/S Malabarath

Kushibar, Sonarpur

Agreement — 18 M.R.P / 2021-22

Date of start — 3/05/2021

Date of Compt — 2/06/2021 (Aftergt)

Work done

1) clay & Brinjal mixed land —

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

$2 \times 5 \times 30.00 \times 1.00 \text{m}^3 = 300.0 \text{m}^3$

Continuation

1/3 2700.0 m<sup>3</sup>

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No. 1	L.	B.	
(continued from page 13)				747.80 m <sup>2</sup>
$2 \times 4 \times 30 \text{ m} \times 0.10$				= 24.0 m <sup>2</sup>
$2 \times 10 \text{ m} \times 0.10$				= 4.0 m <sup>2</sup>
				775.80 m <sup>2</sup>
				contd
b) <u>Brick facing bricklaying</u>				
Brick with bags				
10 Nos.				
c) <u>Bricks masonry work (1:1:3)</u>				
$2 \times 5.20 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 0.60 = 2.50 \text{ m}^3$				
$2 \times 2.45 \text{ m} \times 1.40 \text{ m} \times 0.60 = 1.18 \text{ m}^3$				
$2 \times 2.4 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 0.60 = 0.96 \text{ m}^3$				
$4 \times 1.50 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 0.10 = 1.99 \text{ m}^3$				
				5.08 m <sup>3</sup>
d) <u>Plastering with cement (1:4) on B/w</u>				
$2 \times 5.30 \text{ m} \times 2.40 = 25.44 \text{ m}^2$				
$4 \times 0.40 \text{ m} \times 0.60 = 0.96 \text{ m}^2$				
$2 \times 2.45 \text{ m} \times 1.60 = 7.84 \text{ m}^2$				
$4 \times 0.40 \text{ m} \times 0.60 = 0.96 \text{ m}^2$				
$2 \times 2.00 \text{ m} \times 1.80 = 7.20 \text{ m}^2$				
$2 \times 0.10 \text{ m} \times 0.60 = 0.12 \text{ m}^2$				
$6 \times 1.75 \text{ m} \times 0.60 = 6.50 \text{ m}^2$				
$2 \times 3.00 \text{ m} \times 0.40 = 2.40 \text{ m}^2$				
				1
				51.58 m <sup>2</sup>
				25.522
				J.A

### ***Continuation***

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
11) <u>Reinforcing Concrete &amp; Mandating Super Area</u>					
					(A) <u>4m x 15m Bsf - 26.25 m<sup>2</sup></u>
a) <u>600mm square - 500 Nos</u>					
					@ Rs 9688 = 23.8 — Rs 191912 = w
b) <u>600mm Circular - 250 Nos</u>					
					@ Rs 3897 = 75 E — Rs 37444 = w
c) <u>600 x 150 mm Rectangular - 110 Nos</u>					
					@ Rs 3764 = 99 B — Rs 41413 E = w
d) <u>900 mm Octagonal - 80 Nos</u>					
					@ Rs 7876 = 40 B — Rs 30112 E = w
12) <u>Reinforced earth concrete</u>					
M - 15 in Boundary wall					
					(B) <u>4m x 15m Bsf - 26.25 m<sup>2</sup></u>
184 Nos. @ Rs 533 = 0.9 E					— Rs 66847 = w
13) <u>Planting of trees by road sides</u>					
					(A) <u>4m x 15m Bsf - 26.25 m<sup>2</sup></u>
184 Nos. @ Rs 820 = 1.6 E					— Rs 150969 = w
14) <u>Bob. A levelling of hot thermoplastic compound</u>					
					(B) <u>4m x 15m Bsf - 26.25 m<sup>2</sup></u>
775180 m <sup>2</sup> @ Rs 721 = 91 m <sup>2</sup>					— Rs 560058 = w

Continuation

C of 11527, 773 = P